



Ref: PNBHFL/SE/EQ/FY2025-26/144  
February 11, 2026

BSE Limited  
Listing Department,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400001  
**Scrip Code:** 540173

National Stock Exchange of India Limited  
Listing Department  
'Exchange Plaza'  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai – 400051  
**Symbol:** PNBHOUSING

Dear Sir(s),

**Sub: Newspaper Publication – Postal Ballot**

Ref: Our letter Ref: PNBHFL/SE/EQ/FY2025-26/142 dated February 10, 2026

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have enclosed copies of newspaper advertisement published in Business Standard (English and Hindi edition) regarding Postal Ballot Notice and e-voting Information.

This copy of advertisement is also made available on website of the Company  
<https://www.pnbhousing.com/>

Kindly take the above intimation and documents on record.


Thanking You,



Yours faithfully,  
For **PNB Housing Finance Limited**


**Veena G Kamath**  
Company Secretary




CREDO BRANDS MARKETING LIMITED			
 B 8, MIDC Central Road, Marol, Next to MIDC Police Station, Andheri (E), Mumbai - 400093, Maharashtra, India   Tel. No.: +91 22 6141 7200 Email: investorrelations@mufti.in   Website: www.credobrand.in CIN: L18101MH1999PLC119669			
Extract of Un-audited Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025			
(All amounts in ₹ Millions, unless otherwise stated)			
Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended
	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025
Total revenue from operations	1,461.34	1,555.16	4,297.99
Profit before tax	96.95	244.87	431.93
Net profit after tax	70.19	183.49	321.94
Total Comprehensive Income	70.09	184.43	321.56
Paid-up equity share capital (face value ₹ 2 per share)	130.74	130.38	130.74
Other Equity			
Earning per share (face value ₹ 2 per share) (not annualised)			
Basic in ₹	1.07	2.81	4.94
Diluted in ₹	1.07	2.81	4.93
* Other Equity as at March 31, 2025 was ₹3971.16 Millions.			
<b>Notes:</b> 1. The Un-audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025, have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on February 09, 2026. 2. The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Financial Results are available on the website of the Company i.e., www.credobrand.in and websites of the Stock Exchanges, viz., www.bseindia.com and www.nseindia.com. The Financial Results can also be accessed by scanning the below QR code:			
	For Credo Brands Marketing Limited		
	Sd/-		
	Kamal Khushlani		
	Chairman and Managing Director		
Place :- Mumbai			
Date :- February 09, 2026			


ROUTE MOBILE LIMITED			
CIN: L72900MH2004PLC146323 <b>Registered Office:</b> SanRaj Corporate Park - 4 <sup>th</sup> Dimension, 3 <sup>rd</sup> Floor, Mind Space, Malad (West), Mumbai - 400064. <b>Tel:</b> (022) 4033 7676   <b>Fax:</b> (022) 4033 7650   <b>Website:</b> www.routemobile.com   <b>Email:</b> investors@routemobile.com			
Extract of the consolidated un-audited financial results of Route Mobile Limited and its subsidiaries for the quarter and nine months ended December 31, 2025, prepared in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS)			
(₹ in crores, except for share data)			
Particulars	Quarter ended December 31, 2025	Nine months ended December 31, 2025	Quarter ended December 31, 2024
Revenue from operations	1107.06	3277.31	1183.79
Profit before tax	135.21	213.78	106.95
Profit for the period	102.56	142.51	85.47
Total comprehensive income #	124.09	259.89	67.89
<b>Profit attributable to:</b>			
Owners of the Company	97.70	129.70	82.48
Non-controlling interest	4.86	12.81	2.99
<b>Total comprehensive income attributable to:</b>			
Owners of the Company	118.80	244.43	64.31
Non-controlling interest	5.29	15.46	3.58
<b>Paid up share capital</b> (par value ₹ 10/- each fully paid)	63.00	63.00	62.96
Earnings per share (par value ₹ 10/- each)**			
Basic (in ₹)	15.51	20.59	13.10
Diluted (in ₹)	15.51	20.59	13.10
* Anti-dilutive ** EPS is not annualized for the quarter and nine months ended December 31, 2025, and quarter ended December 31, 2024. # Total Comprehensive income comprises of profit for the period after tax and other comprehensive income after tax			
<b>1. Notes pertaining to the current quarter</b> a. The un-audited interim condensed consolidated financial statements for the quarter and nine months ended December 31, 2025 have been taken on record by the Board of Directors at its meeting held on February 9, 2026. The information presented above is extracted from the un-audited interim condensed consolidated financial statements. The un-audited interim condensed consolidated financial statements are prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter b. The Board of Directors have declared an interim dividend of 30% (₹ 3 per share of face value ₹ 10 each) at its meeting held on February 9, 2026.			
<b>2. Un-audited financial results of Route Mobile Limited (Standalone information)</b> (₹ in Crores)			
Particulars	Quarter ended December 31, 2025	Nine months ended December 31, 2025	Quarter ended December 31, 2024
Revenue from operations	185.94	548.93	206.29
Profit before tax	40.66	124.66	38.92
Profit for the period	30.39	93.72	29.05
<b>Note:</b> The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s), www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the Company's website, www.routemobile.com.			
	By order of the Board		
	For Route Mobile Limited		
	Sd/-		
	Rajdikumar Gupta		
	Managing Director		
	DIN: 01272947		
Date : February 9, 2026			
Place : Mumbai			

 the line pipe people <b>Registered Office :</b> Man House, 101, S. V. Road, Opp. Pawan Hans, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056 <b>Website :</b> www.mangroup.com   <b>Email:</b> cs@manindia.org   <b>CIN :-</b> L99999MH1988PLC047408							
EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2025							
(Rs. in lakhs)							
Sr. No	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended
		31.12.2025	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2024
1	Total Income from Operations	80,354	2,29,828	73,083	83,038	2,40,660	73,194
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8,173	16,841	5,026	7,629	16,397	4,686
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,173	16,841	5,026	7,629	16,397	4,686
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,090	12,564	3,761	5,504	11,963	3,412
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)	6,408	12,693	3,700	5,852	12,213	3,351
6	Paid up Equity Share Capital	3,750	3,750	3,237	3,750	3,750	3,237
7	Earning Per Share (of Rs. 5/- each)						
	Basic (Rs.)	8.45	17.43	5.72	7.64	16.60	5.36
	Diluted (Rs.)	8.31	17.14	5.50	7.51	16.32	5.16
<b>Notes</b> 1. The above is an extract of the detailed format of the Quarter ended results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of nine months & Quarter ended Unaudited Financial Results as reviewed by the Audit Committee on February 09, 2026, and subsequently approved by the Board of Directors on same date are available on the Company's website i.e. http://www.mangroup.com and also available on the websites of Stock Exchanges websites viz BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). 2. The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant Rules issued there under and other accounting principles generally accepted in India. Accordingly, previous period's figures have been reclassified / regrouped/ restated, whenever necessary. 3. The outstanding order book position as on date is approx. Rs. 4,005/- crs to be executed in 6 months to 12 months.							
		For Man Industries (India) Limited					
		R C Mansukhani					
		Chairman					
		DIN - 00012033					
	Place : Mumbai						
	Date : February 09, 2026						

DDEV PLASTIKS INDUSTRIES LIMITED					
CIN: L24290WB2020PLC241791 <b>Regd Office:</b> 2B, Pretoria Street, Kolkata- 700 071 <b>Telephone No :</b> +91-33-2282 3744/45/3671/99 <b>E-Mail:</b> kolkata@ddevgroup.in, Website: www.ddevgroup.in					
YoY Revenue <b>17 %↑</b> YoY EBITDA <b>13 %↑</b> YoY PBT <b>10 %↑</b> YoY PAT <b>11 %↑</b>					
EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 3RD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025					
Rs. In Lacs (Except per share data)					
Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Nine months ended	
		31.12.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	73284.25	66074.53	218220.99	186653.09
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6695.91	6434.22	20024.77	18147.67
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6695.91	6434.22	20024.77	18147.67
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4804.20	4660.28	14729.91	13376.83
5	Total comprehensive income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	4801.56	4660.28	14727.27	13376.83
6	Equity Share Capital	1034.77	1034.77	1034.77	1034.77
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet of the previous year				82435.82
8	Earnings per share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinuing operations) * Basic: Diluted:	4.64 4.64	4.50 4.50	14.23 14.23	12.93 12.93
* EPS is not annualised for the quarter ended periods <b>Note:</b> 1) The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the 03rd quarter and nine months ended 31st December, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results for the 03rd quarter and nine months ended 31st December, 2025, as reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors at their respective meetings held on 10th February, 2026, are available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and that of the Company (www.ddevgroup.in). 2) The company is engaged primarily in the business of different grades of polymer compounds which constitute single reporting segment. Accordingly, the company is a single segment company in accordance with "Indian Accounting Standards 108 Operating Segment". 3) The figures for the corresponding previous period has been regrouped/reclassified wherever necessary, to conform to the current period figures. 4) The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the Financial Results for the 03rd quarter and nine months ended 31st December, 2025, in compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 5) The company does not have any subsidiary/associate/ joint venture entity(ies) hence the reporting of consolidated financials is not applicable. 6) The Board of Directors on 10th February 2026 declared Interim Dividend for the current financial year 2025-26 of Rs. 0.50p (@50%) per equity share of face value Re. 1/- each amounting to Rs. 517.38 Lacs, record date for the same is 20th February 2026. 7) The detailed format of Unaudited Financials Results as available on the website of the Company and that of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited may be referred for note on Labour Codes and other additional notes.					
		For Ddev Plastiks Industries Limited			
		Sd/-			
		Ddev Surana			
		(DIN: 08357094)			
		Whole Time Director and CEO			
	Place: Kolkata				
	Date: 10th February, 2026				

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited						
CIN: L34103TN2004PLC054667, Registered Office : Plot No.3 (SP), III Main Road, Ambattur Industrial Estate, Chennai 600058. Telephone No.91 44 42242000, Fax No.91 44 42242009; email: cvcs.info.india@zf.com; website: www.zf.com						
STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS PERIOD ENDED 31ST DECEMBER 2025						
(Rupees in lakhs except EPS)						
Particulars	STANDALONE					
	Quarter ended		Period ended		Year ended	
	31.12.2025 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
Revenue from operations	105,765.40	90,179.55	95,588.98	292,268.16	280,090.23	380,408.92
Other Income	3,187.61	4,451.90	1,717.57	14,344.74	8,234.33	10,974.90
<b>Total income</b>	<b>108,953.01</b>	<b>94,631.45</b>	<b>97,306.55</b>	<b>306,612.90</b>	<b>288,324.56</b>	<b>391,383.82</b>
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	19,264.60	14,369.91	15,981.82	49,782.42	43,983.06	60,679.64
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	18,471.09	14,369.91	15,981.82	48,988.91	43,983.06	60,679.64
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13,868.20	10,647.00	12,490.83	36,532.69	33,346.56	45,865.82
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	13,887.71	10,892.62	12,588.50	36,779.48	33,132.10	45,439.60
<b>Equity Share Capital</b>						948.38
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						320,131.93
<b>Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) -</b>						
Basic	73.12	56.13	65.85	192.61	175.81	241.81
Diluted	73.12	56.13	65.85	192.61	175.81	241.81
<b>Notes:</b> 1. The above standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months period ended 31 December 2025 were reviewed by the Audit Committee on 10 February 2026 and upon its recommendation, were approved by the Board of Directors at its meeting held on 10 February 2026. The above results for the quarter and nine months period ended 31 December 2025 have been subjected to a review by the statutory auditor of the Company. The report of the statutory auditors is unqualified. 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock exchange website, www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the Company's website https://www.zf.com/mc/bile/en/company/investor_relations/zf_cv_india_investor_relations/zf_cv_india_ir.html#						
						
Hyderabad	For and on behalf of the Board					
February 10, 2026	Akash Passey					
	Chairman					

sidbi	
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA	
PREQUALIFICATION CUM TENDER NOTICE	
SIDBI invites prequalification cum tenders for Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning (DSITC) of five lifts at Mumbai and Ghaziabad Quarters.	
The details may please be seen on SIDBI's website https://sidbi.in/en/tenders or Central Public Procurement Portal (CPP Portal), Modification / Corrigendum if any, will be issued in SIDBI's website and CPP Portal. All the intending agencies should take note of the same.	
Last date for submission of complete documents is up to 3:00 PM on 09/03/2026.	



TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED

A Tata Power and Delhi Government Joint Venture

**TATAPOWER-DDL** Regd. Office: NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi-110 009  
CIN No. U40109DL2001PLC111526, Website: tatapower-ddl.com

CORRIGENDUM / TENDER DATE EXTENTION

Feb 11, 2026

Tender Enquiry No. Work Description	Previously Published Date	Revised Due Date & Time of Bid Submission/ Date & time of opening of bids
TPDDL/INS/ENQ/200001903/2025-26 Renewal of General Insurance Policies	20.01.2026	16.02.2026 at 1700 Hrs/ 17.02.2026 at 1730 Hrs

Complete tender and corrigendum document is available on our website [www.tatapower-ddl.com](http://www.tatapower-ddl.com) → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड</
------------------------------





**यूको बैंक**  
Honours Your Trust  
(A Govt. of India Undertaking)

**UCO BANK**

प्रधान कार्यालय – II,  
म.प्र. पी. - खरौली एवं अवसरवचना  
3 और 4, ईडी ब्लॉक, सेक्टर-1, सांठ लेक  
आमंत्रित – 700064

## निविदा की सूचना

यूको बैंक जेम पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित मद के लिए निविदा आमंत्रित करता है-

1. कोलकाता डाटा सेंटर (KDC) (DR) के पास निम्न डिजिटल रिकवरी (NDR) साइट की स्थापना।  
विवरण के लिए - कुचया <https://www.uco.bank.in> और <https://gem.gov.in> वेबसाइट पर देखें।

दिनांक : 11.02.2026

सूचना प्रोशोपिकी (उप-महाप्रबंधक एवं अवसरवचना)

	<h2 style="margin: 0;">टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड</h2> <p style="margin: 0;">टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम रजि. ऑफिस : एनडीडीसी हाउस, इंदरनगर लाइन, किराँत केम, दिल्ली-110009 CIN No. U40109DL2001PLC111526, वेबसाइट: <a href="http://tatapower-ddl.com">tatapower-ddl.com</a></p>
<h3 style="margin: 0;">शुद्धिपत्र / निविदा विविता</h3>	
<p style="margin: 0;">Feb 11, 2026</p>	
<p style="margin: 0;"><b>निविदा पृष्ठताछ सं.</b> कार्य का विवरण</p>	<p style="margin: 0; text-align: center;"><b>पूर्व प्रकाशित दिनांक</b></p> <p style="margin: 0; text-align: center;">20.01.2026</p>
<p style="margin: 0;"><b>TPDDL/INS/ENQ/200001903/2025-26</b> Renewal of General Insurance Policies</p>	
<p style="margin: 0; text-align: right;">संशोधित निविदा तिथि / बोली जमा कराने की तिथि / बोली खोलने की तिथि</p> <p style="margin: 0; text-align: right;">16.02.2026 at 1700 Hrs/ 17.02.2026 at 1730 Hrs</p>	
<p style="margin: 0;">सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध</p> <p style="margin: 0;">website <a href="http://www.tatapower-ddl.com">www.tatapower-ddl.com</a> → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents</p>	



**कांसार कॉर्पोरेशन**

**भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड**

**CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.**

(सार्वजनिक या नवरात्र उद्योग) (A Navratna Undertaking of Govt. of India)

**क्षेत्र-१ काव्याल, एण्पराइटी, नई एमपीडी रोड, औद्योगिक ज़ोन एस्टेट, नई दिल्ली-110020**

**सार्वजनिक नीलामी/निविदा सूचना - १- नीलामी के माध्यम से**

**सर कंटेनर द्वारा जवत कागज**

कॉनकाँर द्वारा क्षेत्र-१ के विभिन्न र्मिनोंल पर कंटेनर/ सामान (एक्सिम के मौजूदा सीबीआईसी डिशानिर्देश के अनुसार) की नीलामी 2020.02.26 (शुक्रवार) को १- नीलामी के माध्यम से "जेसा है, जहां है" और "बिना शिकायत आधुन प्र" किया जाएगा। कॉनकाँर की ओर से १- नीलामी का आयोजन मेसर्स एण्पराइटीसी द्वारा किया जा रहा है और नीलामी के निर्माणों में सहित सहित सूची प्रकाशित की जाएगी। [www.concordia.co.in](http://www.concordia.co.in) और [www.mstccommerce.com](http://www.mstccommerce.com) पर लॉग इन करें। वे सभी र्माणों पर छिड़क के कंटेनर/ सामान की नीलामी विवाद, यात्राला/ ट्रिब्यूनल/ अन्य द्वारा लंबा प्रतियोगिता या ऐसे किसी अन्य कारण से बेवसाइट पर अचलक हो गई तक सूची में शामिल हैं और जिनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है/ जिन पर दाला नहीं किया गया है। वे कृपया क्षेत्र-१/ कॉनकाँर के से प्रमुख और संबंधित निर्माणों के सीमा शुल्क आयुक्त को इस सूची का तिथि के सात दिनों के भीतर सूचित करें। ऐसा न करने पर बिना किसी आगामी सूचना के सामान की नीलामी कर दी जाएगी।

**संदर्भ: CON/A-1/AU/F/Auction/2025-26/01**

**क्षेत्र प्रमुख, क्षेत्र-१**

**SBi**

सूचना सुरक्षा विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी-सेक्टर, सीबीडी बेलगुवा, नवी मुंबई - 400614

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध**

संदर्भ: SBi/GITC/Information Security Department/2025/2026/1431

दिनांकित: 11.02.2026

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तीन साल की अवधि के लिए बैंक वातावरण में सीएसपीआई के तहत साइबर सुरक्षा रक्षा केंद्र (सीएसपीसीसी) की स्थापना के लिए प्रबंधित सुरक्षा सेवा प्रदाता की नियुक्ति के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पात्र बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित करता है. विवरण के लिए, कृपया <https://sbi.bank.in> और <https://etender.sbi/SBI> पर प्रोक्योरमेंट न्यूज देखें.

आरएफपी के डाउनलोड का आरंभ : 12.02.2026 को 09:00 बजे से

बोलियां जमा कराने की अंतिम तिथि व समय : 06.03.2026 को 15:30 बजे तक

स्थान: नवी मुंबई

उप महाप्रबंधक (इंफोर्टेड रिसर्पॉन्स)

सूचना सुरक्षा विभाग

दिनांक: 11.02.2026



# PNB Housing

## Finance Limited

### Ghar Ki Baat

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतर्निष्ठ भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001  
 फोन सं. +91 11 466030500 ई-मेल : investor.services@pnbhousing.com  
 CIN : L65922DL1988PLC033856 वेबसाइट : www.pnbhousing.com

## सदस्यों को लिए जाक मतपर की सूचना

एतद् द्वारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों के सूचित किया जाता है कि धारा 108 और 110 के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पंढित कंपनी (प्रबंधन और प्राधान) निम्नी, 2014 ("प्रबंधन निर्मां") के नियम 20 और 22, सिक्कीयोटरी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सुचिकरण दिशानिर्देशों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) निम्नी, 2015 ("सूचिकीबद्धता नियम") के विनियमान 44 के रूप में संशोधित और अन्य लागू कानूनों और विनियमों एमसीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ पंढित, अन्य बातों साथ साथ ई-मतदान के माध्यम से जाक मतपर आयोजित करने के लिए सामान्य परिषद संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सं. 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और सं. 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिषद") भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी और एमसीए द्वारा अतिरिचित सामन्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस-2) और संबधित सेवी परिषद पर अन्य लागू प्रावधान, यादि कोई हो, जिसमें कोई सांखिकी संशोधन (ओं) या पुनः निर्धारितन शामिल है, जो सामन्य-समय पर लागू और संशोधित किए गए हैं, इस जाक मतपर ("सूचना") में निष्पत्ति विशेष व्यवसायों को संपादित करने के लिए, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("ई-मतदान") के माध्यम से मतदान करके जाक मतदान के माध्यम से कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन माना जाता है।

क्र. सं.	प्रस्तावित प्रस्ताव	प्रस्ताव के प्रकार
1.	श्री अजयी कुमार शुकला, (डीआईएन : 11356498) की कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति	सामान्य
2.	श्री दिवाकर महापात्रा, (डीआईएन : 90446502) की कंपनी के नामित गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति	सामान्य
3.	श्री दिलित कुमार जून, (डीआईएन : 06822012) गैर-कार्यकारी नामित निदेशक को बैठक शुरू को मुताना	सामान्य

उपरोक्त एमसीए परिषदों के अनुपानान में, यह सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी जा रही है, जिसे ई-मेल पर कंपनी/शालक/निर्वाह सिक्कीयोटरी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनडीएल) और सेंडल डिपॉजिटरी सचिसेस इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) (सामूहिक रूप से "डिपॉजिटरीज") के रूप में (संदर्भित) के साथ पंजीकृत हैं। कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर संचालक एनोटी (आरटीए) यानी एमयूएफजी इंडियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इंडाट्रम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)/डिपॉजिटरी प्रतियोगी के साथ पंजीकृत हैं और निम्नेक नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार यानी गुलबारा, 06 फरवरी, 2026 ("कट-ऑफ डेट") के रूप में डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी शिर्काओं के रजिस्ट्रार में लिखाई गई इस्तरिफ, इस जाक मतपर के लिए सूचना की भौतिक प्रत सधित पोस्टल बेल्ट फार्म और पूर्व-पेड व्यवसायिक प्रत्युत्तर लिपिआन सदस्यों को भेजा गया है। कंपनी ने आज यानी मांरुना, 10 फरवरी, 2026 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना भेजना पूरा कर लिया है। प्रत्येक सदस्य के मतदान अधिकार कंपनी की मुतातातित इवनीटी शेयर पुंजी में उनके शेयर के अनुपात के अनुसार कट-ऑफ दिनांक पर गाना की जाएगी, जिसे केवल दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए माना जाता।

### सूचना के लिए निदेशः

सदस्यों ने अपने सभी सदस्यों को ई-मतदान वदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्कीयोटरीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं, ताकि सूचना में उपलब्ध सामान्य प्रस्ताव पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

### ई-मतदान सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी :

दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होने की अवधि	बुधवार, 11 फरवरी, 2026, पूर्वाह्न 09:00 बजे (आईएसटी)
दूरस्थ ई-मतदान समाप्ती	गुरुवार, 12 मार्च, 2026, अपराह्न 05:00 बजे (आईएसटी)

दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा को एनएसडीएल द्वारा 05:00 बजे (आईएसटी) गुरुवार, 12 मार्च, 2026 के बाद अक्षम कर दिया जाएगा और 05:00 बजे (आईएसटी) गुरुवार, 12 मार्च, 2026 के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दूरस्थ ई-मतदान की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रक्रियाओं अनुदेश जिसमें सदस्य अपना ईमेल पते को पंजीकृत कर सकते हैं और/या अपना वोट डाल सकते हैं, सूचना में निहित किए गए हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री सुजीत कुमार (सदस्यता सं. एफसीएस 125662, सी पी नंबर 226684), श्री विजय के सिंघाल (सदस्यता सं. एफसीएस एफ 13221, सी पी नंबर 10385) को, संजय गोंवर (एसोसिएट के भागीदार), कंपनी सचिवों, नई दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया में एक निष्पक्ष और पारदर्शीता में संचालन के लिए "संबीधकारी" के रूप में नियुक्ति किया है।

जाक मतपर के परिणामों की घोषणा शनिवार, 14 मार्च, 2026 को या उससे पहले सवीधार्कता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद की जाएगी और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर संप्रेषित की जाएगी, जहां कंपनी के इवनीटी शेयर सूचीबद्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट यानी [www.pnbhousing.com](http://www.pnbhousing.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी प्रदर्शित हों।

ई-मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिक्कात के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएआर) का संदर्भ ले सकते हैं और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मंडल यानी [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) अनुभाग "डाउनलोड" पर उपलब्ध है या कॉल करें : 022-4886 7000 या सुश्री पल्लवी म्हाने, एनीपी, एनएसडीएल को [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर एक अनुरोध भेजें। आप [investor.services@pnbhousing.com](mailto:investor.services@pnbhousing.com) पर भी सचिव सलते पर हैं।

प्रति पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हस्ता, /-  
वीना जी कामथ  
कंपनी सचिव

दिनांक : 10 फरवरी, 2026  
 स्थान : नई दिल्ली

## आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

**कार्पोरेट कार्यालय:** युनित नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.बी. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069.

**राजेन्द्रपैलेस शाखा:** फ्लेट-21, दूसरी मंजिल, बिल्डिंग नं. बी-5, राजेन्द्रपार्क, पुरा रोड, न्यू दिल्ली - 110060



**Aadhar**  
Housing Finance Ltd

### आधिनियत सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरिटीइजिजेशन एंड रिस्कटक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंस्ट्रुमेंट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंस्ट्रुमेंट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ संपर्कित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्रगति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नमूलातन करने के लिए ऋणकर्ताओं/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ता/राशि का पुर्नमूलातन करने में असफल रहे हैं, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ संपर्कित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन 8 (4) के अंतर्गत शक्ति का उपयोग करते हुए ऋणकर्ताओं(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ताओं(ओ) एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अडोहेस्तारकरतलन में अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एज में संपत्ति को मुक्त करने के लिए उपरबन्ध समझ सौदा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताओं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में सामान्य जनो को सारजनिक रूप से यह लेावानी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्र.	ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 36510000470/ राजेन्द्र पैलेस शाखा) अमर वर्मा (अश्वी) वीणा कुमारी वर्मा (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, ऊपरी तल मंजिल, प्लाट नं.-43 पर संपत्ति, गली नं. 8, ग्राम हस्तसल, उत्तम नगर हस्तसल पश्चिम दिल्ली 110059. <b>चट्टीसमाप्ते:-</b> पूर्व - अन्य संपत्ति, पश्चिम - 17 फीट रोड, उत्तर - प्लाट का भाग, दक्षिण - प्लाट का भाग	<b>12-04-2025</b>  <b>&amp;</b> <b>17,172,306/-</b>	<b>09-02-2026</b>

**स्थान : दिल्ली**  
**दिनांक : 11.02.2026**

**प्राधिकृत अधिकारी**  
**आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

# एमसंस इंटरनेशनल लिमिटेड

रजिस्ट्रार: L74899DL1993PLC053060

पंजीकृत कार्यालय पते: नं. 301, प्लॉट नं. 12, अमरसुन्दर, बसुमती रोड, बंगला कालोनी, नई दिल्ली-110048

फोन नं: 011-26247721-25, ई-मेल: 011-26247730

वेबसाइट: www.emmsons.com, ई-फाइल: corporate@emmsons.com

## 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

(राशि लाखों में इंगीरस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त			नौ माह समाप्त		वर्ष समाप्त
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	—	—	—	—	54.49	54.49
2	अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदी और कर से पूर्व)	(23.86)	(14.50)	(21.57)	(55.74)	(12.69)	(43.04)
3	कर पूर्व अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदी के बाद)	(23.86)	(14.50)	(21.57)	(55.74)	(12.69)	(43.04)
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदी के बाद)	(23.86)	(14.50)	(21.57)	(55.74)	(12.69)	(43.04)
5	कुल समग्र आय	(22.83)	(13.60)	(20.86)	(52.89)	(10.55)	(37.95)
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60
7	प्रति शेयर अर्जन रु. 10/- प्रत्येक (1) बेसिक (रु.) (2) डायल्यूटेड (रु.)	— (0.20) (0.20)	— (0.12) (0.12)	— (0.18) (0.18)	— (0.46) (0.46)	— (0.11) (0.11)	— (0.36) (0.36)

## 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

(राशि लाखों में इंगीरस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त			नौ माह समाप्त		वर्ष समाप्त
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	—	—	—	—	54.49	54.49
2	अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदी और कर से पूर्व)	(36.03)	(14.50)	(21.57)	(67.90)	(12.69)	(43.04)
3	कर पूर्व अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदी के बाद)	(36.03)	(14.50)	(21.57)	(67.90)	(12.69)	(43.04)
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदी के बाद)	(36.03)	(14.50)	(21.57)	(67.90)	(12.69)	(43.04)
5	कुल समग्र आय	(34.99)	(13.60)	(20.86)	(65.06)	(10.55)	(37.95)
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60
7	प्रति शेयर अर्जन रु. 10/- प्रत्येक (1) बेसिक (रु.) (2) डायल्यूटेड (रु.)	— (0.30) (0.30)	— (0.12) (0.12)	— (0.18) (0.18)	— (0.57) (0.57)	— (0.11) (0.11)	— (0.36) (0.36)

नोट:

1. उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी के सांख्यिक लेखापरीक्षक द्वारा सीमित समीक्षा के तहत थे, लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 10 फरवरी, 2026 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए। सांख्यिक लेखापरीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट बींसेइनड एक्सचेंज में दर्ज की जा रही है।

2. ऊपर संकेतित (वृद्धि/घट) और अन्य प्रकटन आवश्यकताएं नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत रिपोर्ट एक्सचेंज में पेश किए गए। 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के वित्तीय रूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का वित्तीय पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ([www.bseindia.in](http://www.bseindia.in)) पर उपलब्ध है।

बॉर्ड के आदेशानुसार  
किसे एमसंस इंटरनेशनल लिमिटेड  
हस्ता/-  
राजेश भोला  
पूर्णतः निदेशक

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 10 फरवरी, 2026